

प्रेस नोट थाना गगहा गोरखपुर दिनांक 19/10/2020

नाबालिक अपहृता बरामद अभियुक्त आकाश गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के दिशानिर्देश में व पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व पुलिस उपाधीक्षक बांसगाव के कुशल मार्ग निर्देशन में थानाध्यक्ष राजप्रकाश सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रधान यादव मय हमराह कर्मचारीगण के मु0अ0सं0 694/2020 धारा 363/366 भादवि से सम्बन्धित अपहृता के बरामदगी हेतु गगहा बाजार में मामूर थे कि मुखबिर खास आकर मिला और बताया कि साहब ग्राम गम्भीरपुर से एक नाबालिक लड़की को अभियुक्त आकाश भगाया था वह लड़की व लड़का आकाश भलुआन में मौजूद है वाहन का इन्तजार कर रहे हैं कहीं भागने के फिराक में हैं। उक्त सूचना पर विश्वास कर हमराही कर्मचारीगण को अवगत कराते हुये मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता के पिता को जरिये दूरभाष सूचना देकर बुलाया गया तथा मुखबिर को साथ लेकर मय पुलिस फोर्स के भलुआन रमपुरवा मोड़ के पास पहुंचे जहाँ पर मुखबिर के निशानदेही पर रमपुरवा मोड़ पर खड़े एक लड़के को पकड़कर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम आकाश पुत्र चिन्तामणि निवासी ग्राम कुसहा थाना गोला जनपद गोरखपुर बताया जो मुकदमा उपरोक्त का नामजद/वांछित अभियुक्त है। अभियुक्त आकाश को कारण गिरफ्तारी बताते हुये समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। व मौके पर मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता को उसके पिता द्वारा पहचान होने के उपरान्त म0का0 नेहा पाण्डेय को सुपुर्द किया गया व आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण

एक लड़के द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 17/10/2020 को पीड़िता के पिता के तहरीर पर मु0अ0सं0 694/2020 धारा 363/366 भादवि पंजीकृत किया गया था। अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु टीम लगायी गयी। पुलिस टीम द्वारा मुकदमा पंजीकृत होने के 2 दिवस के अन्दर पीड़िता को बरामद किया गया तथा अभियुक्त आकाश उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता

1. आकाश पुत्र चिन्तामणि निवासी ग्राम कुसहा थाना गोला जनपद गोरखपुर

अभियोग जिसमें गिरफ्तारी की गयी का विवरण –

मु0अ0सं0 694/2020 धारा 363/366 भादवि

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

भलुआन रमपुरवा मोड़ दिनांक 19/10/2020 समय 08.50 AM

गिरफ्तारी टीम के सदस्यगण-

- (1) उ0नि0 प्रधान यादव
- (2) हे0का0 हरेन्द्र यादव
- (3) हे0का0 सन्तोष चौरसिया
- (4) म0का0 नेहा पाण्डेय